



स मा चार

कोरोना के खिलाफ जंग में मीडिया की अहम भूमिका : श्री गौतम

कोरोना काल में दिवंगत पत्रकारों पर आधारित पुस्तक 'बिछड़े कई बारी-बारी' का विमोचन

भोपाल, 20 दिसंबर। विधानसभा के मानसरोवर सभागार में सोमवार को वरिष्ठ पत्रकार श्री देव श्रीमाली की पुस्तक 'बिछड़े कई बारी-बारी' का विमोचन किया गया। यह पुस्तक कोरोना काल में अपनी झूटी के दौरान प्राण गंवाने वाले पत्रकारों के योगदान पर आधारित है। पुस्तक का विमोचन मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान, विधानसभा अध्यक्ष श्री गिरीश गौतम, नेता प्रतिपक्ष श्री कमलनाथ, गृह मंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्रा एवं अन्य गणमान्यजन उपस्थित थे।

इस अवसर पर विधानसभा अध्यक्ष श्री गिरीश गौतम ने कहा कि कोरोना काल में सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करने में कई वर्गों की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। इसमें पत्रकार भी प्रमुखता से शामिल हैं। मीडिया ने एक ओर जहां आमजन को कोरोना के प्रति जागरूक करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई तो वहीं सरकार को भी समय-समय पर आगाह किया। आज मध्यप्रदेश कोविड-19 वेक्सीनेशन में बहुत बेहतर स्थिति में है और इसे जनअभियान बनाने में मीडिया की भी अपनी भूमिका रही है।

श्री गौतम ने देव श्रीमाली की पुस्तक 'बिछड़े कई बारी-बारी' की प्रशंसा करते हुए कहा कि यह पुस्तक एक तरह से अपनी आपबीती घटना है। जो कोरोना योद्धा हमें छोड़ कर चले गए हैं हमें उन्हें भूल न जाए इसलिए उनकी याद को चिरस्थायी बनाए रखने के लिए देव श्रीमाली जी ने यह पुस्तक लिखी है। अभी भी कुछ नाम छूट गए होंगे इस लिए इस कार्य को आगे बढ़ाना चाहिए।

वि.स./ज.स./21

(नरेन्द्र मिश्रा)

अवर सचिव